



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 567] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 1979/पौष 10, 1901
No. 567] NEW DELHI, MONDAY, DEC. 31, 1979/PAUSA 10, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

दिल्ली मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1979

का. आ. 878(अ).—केंद्रीय सरकार, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 114 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वर्ण नियंत्रण (प्ररूप, फीस और प्रकीर्ण विषय) नियम, 1968 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम स्वर्ण नियंत्रण (प्ररूप, फीस और प्रकीर्ण विषय) संशोधन नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. स्वर्ण नियंत्रण (प्ररूप, फीस और प्रकीर्ण विषय) नियम, 1968 के परिशिष्ट में, प्ररूप सं. जी. एस. 17 में,—

(1) “(सभी आंकड़े ग्रामों में लिखे जाएँ)” कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर “(सभी आंकड़े ग्रामों में और शुद्ध स्वर्ण (24 कैरेट) के रूप में लिखे जाएँ)” कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएँगे ;

(2) मद 2 में, उपमद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित उपमद रखी जाएगी,
अर्थात् :—

“(ग) प्रमाणित स्वर्णकार . . .

(घ) अन्य . . .” ;

(3) मद 6 के पश्चात्, निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी,
अर्थात् :—

“7 टिप्पणियां . . . तिमाही के दौरान व्याहारी का कुल आवर्त” ।

[सं. 6/79-फा. सं. 131/14/79- जो सी 2]

मा. रामचन्द्रन, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 1979

S.O. 878(E).—In exercise of the powers conferred by section 114 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Gold Control (Forms, Fees and Miscellaneous Matters) Rules, 1968, namely:—

1. (1) These rules may be called the Gold Control (Forms, Fees and Miscellaneous Matters) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Appendix to the Gold Control (Forms, Fees and Miscellaneous Matters) Rules, 1968, in Form No. G.S. 17,—

(i) for the brackets and words “(All Figures to be in grammes)”, the brackets, words and figures “[All figures to be in grammes and in terms of pure gold (24 carats)]” shall be substituted;

(ii) in item 2, for sub-item (c), the following sub-items shall be substituted, namely :—

“(c) Certified Goldsmiths.....

(d) Others.....”;

(iii) after item 6, the following item shall be inserted, namely :—

“7. Remarks.—Total turnover of the dealer during the quarter.

[No. 6/79/F. No. 131/14/79-GC. II]

M. RAMACHANDRAN, Addl. Secy.